



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 17, 1982/चैत्र 27, 1904

No. 24]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 17, 1982/CHAITRA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1982

आ० प्र० 47(अ).—पश्चिमी बंगाल राज्य के 17-डायमण्ड हारबर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उस सदन में एक स्थान रिक्त हो गया है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए तारीख 24 मई, 1982 (सोमवार) से पूर्व, उक्त अधिनियम और अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/प० बं०-लो० सं०/1/82(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th April, 1982

O.N. 47(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the death of Shri Jyotirmoy Bosu, a member elected to that House from 17-Diamond Harbour Constituency in the State of West Bengal;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upto the said constituency to elect a person to fill the said vacancy before the 24th May, 1982 (Monday) in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder;

[No. 100/WB-HP/1/82(1)]

आ० प्र० 48 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/प० बं०-लो० सं०/1/82 (1), तारीख 17 अप्रैल, 1982 के अनुसरण में पश्चिमी बंगाल राज्य के 17 डायमण्ड हारबर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में,

- (क) नाम निर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख 24 अप्रैल, 1982 (शनिवार)
- (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 26 अप्रैल, 1982 (सोमवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 28 अप्रैल, 1982 (बुधवार)
- (घ) वह तारीख जिसको यदि 19 मई, 1982 (बुधवार) आवश्यक हो तो मतदान होगा।

- (क) वह तारीख जिसके पूर्व 24 मई, 1982 (सोमवार)
निर्वाचन समाप्त कर
दिया जाएगा।
एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 100/प० बं०-खो०स०/1/82(2)]

O.N. 48(E).—In pursuance of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 17-Diamond Harbour Parliamentary Constituency in the State of West Bengal in pursuance of its notification No. 100/WB-HP/1/82(1), dated the 17th April, 1982,—

- the 24th April, 1982 (Saturday) as the last date for making nominations ;
- the 26th April, 1982 (Monday) as the date for the scrutiny of nominations ;
- the 28th April, 1982 (Wednesday) as the last date for the withdrawal of candidatures ;
- the 19th May, 1982 (Wednesday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ; and
- the 24th May, 1982 (Monday) as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/WB-HP/1/82(2)]

का० प्र० 49(घ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं०/100/प० बं०-खो० स०/1/82 (1), तारीख 17 अप्रैल, 1982 के अनुसरण में लोक सभा के लिए 17-डायमंड हारबोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 7-30 बजे पूरवाह्न से 4-30 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो मतदातृ होगा।

[सं० 100/प० बं०-खो०स०/1/32(3)]

आदेश से

सतीश चन्द्र जैन, अवर सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

O.N. 49(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 7.30 A.M. to 4.30 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 17-Diamond Harbour Parliamentary Constituency, to be held in pursuance of its notification No 100/WB-HP/1/82(1), dated the 17th April, 1982.

[No. 100/WB-HP/1/82(3)]

By Order,
S. C. JAIN, Under Secy.
Election Commission of India.